

Corp. Off.:- 201, "The Summit Business Bay" Behind Guru Nanak Petrol Pump, Off Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai - 400 093 (India) Ph.: +91 22 69073100

16<sup>th</sup> February, 2022

### **BSE Limited**

Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai-400001

Stock Symbol-533543 Through: BSE Listing Centre

Dear Sir/Madam,

### National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, C-1, Block G Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai-400051

Scrip Code- BROOKS Through: NEAPS

### Sub: Newspaper Publication of Financials in Newspaper

With reference to above, please note that the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the 3<sup>rd</sup> quarter ended on 31<sup>st</sup> December, 2021 of the Company has been published in English in Financial Express all edition on 15<sup>th</sup> February, 2022 and in Hindi in Jansatta, Chandigarh edition on 16<sup>th</sup> February, 2022.

Enclosed herewith please find copy of the newspapers cuttings.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours faithfully

For BROOKS LABORATORIES LIMITED

(Jyoti Sancheti)

Company Secretary and Compliance Officer

Membership No. F9639

Quarter

### ntc industries limited CIN: L70109WB1991PLC053562

Regd. Office: 149, B. T. Road, Kamarhati, Kolkata-700 058 EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED)

FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2021

STANDALONE

	STANDALONE								
Particulars	C	uarter End	ed	Nine Mon	Year Ended				
	31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021			
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)			
Total income from operations (net)	825.10	902.66	782.26	2257.25	1908.38	2815.57			
Net Profit/loss for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra-ordinary items)	245.47	193.63	265.01	510.60	642.23	854.85			
Net Profit/loss for the period (before Tax, after Exceptional and/or Extra-ordinary Items)	245.47	193,63	265.01	510.60	642.23	854.85			
Net Profit/loss for the period (after Tax, after Exceptional and/or Extra-ordinary items)	198.06	140.68	265.01	410.24	642.23	628.92			
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)	135.69	223.21	301.42	646.49	635.93	625.80			
Earnings Per Equity Share (par value of Rs. 10 each) Basic:	1.66	1.18	2.47	3.43	5.97	5.85			
Diluted:	1.66	1.18	2.47	3.43	5.97	5.85			
	CONSOLIDATED								
Particulars	Quarter Ended			Nine Mon	ths Ended	Year Ended			
	31.12.2021	30.09.2021		31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021			
Total income from operations (net)	1,037.76	1,134.97	965.60	2,894.55	2,428.15	3506.57			
Net Profit/loss for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra-ordinary items)	400.28	352.40	371.20	956.93	928.75	1203.98			
Net Profit/loss for the period (before Tax, after Exceptional and/or Extra-ordinary items)	400.28	352.40	371.20	956.93	928.75	1203.98			
Net Profit/loss for the period (after Tax, after Exceptional and/or Extra-ordinary items)	242.87	299,45	371.20	746.57	928.75	803.67			
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)	180.50	381,98	407.61	982.82	922.45	800.55			
Earnings Per Equity Share (par value of Rs. 10 each) Basic:	2.03	2.51	3.45	6.25	8.64	7.47			
Diluted:	2.03	2.51	3.45	6.25	8.64	7.47			

Place: Kolkata.

Date: 14th February, 2022

1. The above Audited financial results have been duly reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 14th February,2022. The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Reguirements) Regulations, 2016. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com/www.cse-india.com) and on the company website (www.ntcind.com)

For and on behalf of the Board

Priyawart Jariwala

Managing Director DIN: 09148113

## energizing lives GENUS PAPER & BOARDS LIMITED

### CIN: L21098UP2012PLC048300

Regd. Office: Vill. Aghwanpur, Kanth Road, Moradabad-244001, Uttar Pradesh Corporate Office: D-116, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 Ph.: 0591-2511171, Fax: 0591-2511242, E-mail: cs@genuspaper.com, Website: www.genuspaper.com,

CTANDALONE

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021 (Rs. in Lakhs, Unless Otherwise Stated)

		3	STANDALONE		CONSOLIDATED			
S. No.	PARTICULARS	Quarter Ended December 31, 2021	Nine Months Ended December 31, 2021	Quarter Ended December 31, 2020	Quarter Ended December 31, 2021	Nine Months Ended December 31, 2021	Quarter Ended December 31, 2020	
- 9		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	
1	Total income from operations	11198.99	31152.20	8067.93	17069.42	40749.49	8067.93	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	69.94	183.53	534,54	1846.91	2310.06	534,54	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	69.94	183.53	534.54	1846.91	2310.06	534.54	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	69.60	147.76	415.53	1422.41	1813.63	415.53	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	69.60	147.76	415.53	1422,41	1813.63	415.53	
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re.1/- each)	2571.26	2571,26	2571.26	2571.26	2571.26	2571.26	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	3.43	8	*		2-	-	
8	Earnings Per Share (Face value of Re.1/- each) - (for continuing and discontinued operations) (not annualised) (amount in Rs.)							
	Basic :	0.03	0.06	0.16	0.55	0.71	0.16	
	Diluted:	0.03	0.06	0.16	0.55	0.71	0.16	

 The above unaudited financial results (Standalone and Consolidated) of Genus Paper & Boards Limited ("the Company") have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their meeting held on February 14, 2022. Limited review of these results as required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, has been completed by the statutory auditors of the Company. The Statutory Auditor has issued an unqualified report thereon. The above unaudited financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards)

Previous year/period figures has been regrouped/reclassified, wherever necessary to conform to those current year

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Moradabad Date: February 14, 2022 (Himanshu Agarwal) Whole Time Director DIN: 00065185

## FINANCIAL EXPRESS

CIN: L72300DL1977PLC008782 Regd. Off.: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi -110019 Tel: 011-26444812, E-mail: idmcomplianceofficer@gmail.com Website: www.idmlimited.in

INTERNATIONAL DATA MANAGEMENT LIMITED

<u>UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021</u>

EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE OVARTER AND NINE MONTHS ENDED 31<sup>ST</sup> DECEMBER, 2021 (Rs. In Lacs)

[Pursuant to Regulation 47 (1) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

Sr.			Audited		
No.	PARTICULARS	Three Months Ended 31.12.2021	Nine Months Ended 31.12.2021	Three Months Ended 31.12.2020	Year Ended 31.03.2021
1	Total Income from operations	0	0	0	0
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.81)	(6.28)	(2.16)	(8.91)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.81)	(6.28)	(2.16)	(8.91)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.81)	(6.28)	(2.16)	(8.91)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1.81)	(6.28)	(2.16)	(8.91)
6	Equity Share Capital	220.00	220.00	220.00	220.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	0	0	0	(440.02)
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operation)-  1. Basic:  2. Diluted:	(0.08) (0.08)	(0.29) (0.29)	(0.10) (0.10)	(0.40) (0.40)

33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website; www.bseindia.com NOTES B:

1 The above results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors in their respective meetings held on February 14, 2021 along with Limited Review Report provided by the Statutory Auditors of the Company.

2 This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (IND AS) prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent

3 Previous years/periods figures have been regrouped /rearranged wherever necessary

For International Data Management Limited

**Sunil K Srivastava** 

Place: New Delhi Date: February 14, 2022

ATANTA

(Chairman & Director) DIN: 00259961

AJANTA SOYA LIMITED CIN L15494RJ1992PLC016617 Regd. Office & Works: SP-916, Phase - III, Industrial Area, Bhiwadi - 301019, Rajasthan, India

Tel.: 911-6176727, 911-6128880 Corp. Office: 12th Floor, Bigjo's Tower, A-8, Netaji Subhash Place, Wazirpur District Centre, Delhi-110034

Phone: 011-42515151; Fax: 011-42515100 WEBSITE- www.ajantasoya.com, Email - cs@ajantasoya.com

Extract of Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2021

		Standalone								
SI No.	Particulars	Quarter ended 31.12.2021 Un-Audited	Quarter ended 30.09.2021 Un-Audited	Quarter ended 31.12.2020 Un-Audited	Nine Months ended 31.12.2021 Un-Audited	Nine Months ended 31.12.2020 Un-Audited	Year ended 31.03.2021 Audited			
1.	Total Income from operations*	30951.19	37307.80	24251.81	101954.80	67557.54	93902.61			
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra Ordinary items)	872.78	1667.68	1160.00	3858.86	2235.85	4058.28			
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	872.78	1667.68	1160.00	3858.86	2235.85	4058.28			
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	576.53	1867.05	767.18	3311.73	1566.81	2514.09			
5.	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after Tax)]	573.78	1890.32	769.12	3332.25	1574.57	2526.31			
6.	Equity Share Capital	1609.66	1609.66	1609.66	1609.66	1609.66	1609.66			
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited	6326.16 (as on	6326.16 (as on	3799.85 (as on	6326.16 (as on	3799.85 (as on	6326.16 (as on			
8.	Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for	31.03.2021)	31.03.2021)	31.03.2020)	31.03.2021)	31.03.2020)	31.03.2021			
ŭ.	continuing and discontinued operations) -		44.00	4 77	20.57	0.70	45.00			
	Basic: Diluted:	3.58 3.58	11.60 11.60	4.77 4.77	20.57 20.57	9.73 9.73	15.62 15.62			

\*Total Income from operations consists of "Revenue from Operations and Other Income".

This Financial Results of the Company have been prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable. The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under

Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2021 Un-audited Financial Results are available on the Stock Exchange websites: www.bseindia.com and on Company's website www.ajantasoya.com. The above results were reviewed by the Audit committee, and thereafter approved by the Board of Directors in their meeting held or

14th February, 2022.

Previous year periods figures have been regrouped/reclassified wherever necessary.

On behalf of the Board For Ajanta Soya Limited

Sushil Goyal **Managing Director** Place: New Delhi Date: 14th February, 2022 (DIN: 00125275



## **BROOKS LABORATORIES LIMITED**

CIN No.: L24232HP2002PLC000267

Regd. Off.: Village Kishanpura, Nalagarh Road, Baddi, Distt. Solan, (HP)-174101 Telefax No :+91 1795 236939, E-mail: investors@brookslabs.net, Website: www.brookslabs.net

### EXTRACTS OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31<sup>ST</sup> DECEMBER, 2021

Sr.	Particulars	Standalone						Consolidated					
No.		ars Quarter Ended		Nine months ended Year Ended		Quarter Ended			Nine months ended		Year Ended		
		31-Dec-21 Unaudited	30-Sep-21 Unaudited	31-Dec-20 Unaudited	31-Dec-21 Unaudited	31-Dec-20 Unaudited	31-Mar-21 Audited	31-Dec-21 Unaudited	30-Sep-21 Unaudited	31-Dec-20 Unaudited	31-Dec-21 Unaudited	31-Dec-20 Unaudited	31-Mar-21 Audited
1	Total income from operations (net)	1,767.03	2,105.08	2,092.20	5,430.23	6,263.18	7,724.69	1,900.83	2,146.21	2,092.20	6,261.54	6,263.18	7,724.69
2	Net Profit / (Loss) for the period from ordinary activities (Before Share of Profit / (Loss) of Associate, tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	(186.69)	105.89	(311.72)	61.51	(263.88)	(843.53)	(863.78)	(652.96)	(311.75)	(1,737.83)	(263.91)	(898.53)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Share of Profit / (Loss) of Associate, Exceptional and /or Extraordinary items)	(186.69)	105.89	(311.72)	61.51	(263.88)	(843.53)	(863.78)	(665.55)	(255.50)	(1,737.83)	(207.66)	(899.33)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Share of Profit / (Loss) of Associate, Exceptional and /or Extraordinary items)	(186.69)	105.89	(311.72)	61.51	(263.88)	(1,558.76)	(740.40)	(483.07)	(255.50)	(1,337.72)	(207.66)	(1,937.55)
5	Total Comprehensive Income for the period ((comprising profit or (loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)]	(189.64)	102.94	(314.43)	52.64	(272.00)	(1,547.97)	(743.36)	(486.02)	(258.21)	(1,346.60)	(215.78)	(1,926.76)
6	"Equity Share Capital (Face Value Rs.10/- per share)"	2,470.28	2,470.28	2,470.28	2,470.28	2,470.28	2,470.28	2,470.28	2,470.28	2,470.28	2,470.28	2,470.28	2,470.28
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year.	3,950.76	3,950.76	7,371.32	3,950.76	7,371.32	7,371.32	5,444.56	5,444.56	1 4	5,444.56	\$¥	
8	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (not annualised)										.0		
	(a) Basic	(0.77)	0.42	(1.27)	0.21	(1.10)	(6.31)	(3.14)	(1.97)	(1.05)	(5.09)	(0.87)	(7.84)
	(b) Diluted	(0.77)	0.42	(1.27)	0.21	(1.10)	(6.31)	(3.16)	(1.97)	(1.05)	(5.13)	(0.87)	(7.84)

### (b) Diluted Notes:

The above is an extract of the detailed format of unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended and nine months ended 31st December, 2021 filed with the stock exhanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended and nine months. ended 31st December, 2021 is available on www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.brookslabs.net. For and on behalf of the Board

Place: Mumbai Date: 14th February, 2022

financialexp.epap

Rajesh Mahajan DIN: 02000634 **Managing Director** 

### ENTRY INDIA PROJECTS PRIVATE LIMITED Reg. Office: D-55, Defence Colony, New Delhi-110024 CIN: U45400DL2008PTC173053, Email: contact@eippl.com

UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 3157, 2021 [Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 SEBI (LODR Regulations)] (All Amounts are in Rs.)

SI No.	Particulars	ending (December 31, 2021)	year ended March, 2021
1.	Total Income from Operations	1,21,07,311	2,12,48,439
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#).	98,79,125	1,42,98,872
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	98,79,125	1,42,98,872
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	82,79,603	1,04,79,237
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	82,79,603	84,76,423
6.	Paid up Equity Share Capital	1,55,31,340	1,55,31,340
7.	Other Equity	84,51,72,109	83,68,23,513
8.	Net worth	76,11,45,013	75,27,96,417
9.	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	30,99,71,119	10,00,00,000
10.	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	108
11,	Debt Equity Ratio	0.41:1	0.13:1
12.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -  1. Basic:  2. Diluted:	5.33 3.27	6.75 4.08
13.	Capital Redemption Reserve	N.A	N.A
14.	Debenture Redemption Reserve	N.A	N.A
15.	Debt Service Coverage Ratio	23.72 Times	-
16.	Interest Service Coverage Ratio	25.29 Times	8-

 The above is an extract of the detailed format of quarterly un-audited financial results for the quarter ended on 31.12,2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of guarterly un-audited financial results for the quarter ended on 31.12.2021 are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity. (www.eippl.com). The above financial results were reviewed and recommended by the Board of Directors at their meetings

The company is primarily engaged in the business of carrying on the business of construction of residential houses, commercial buildings, flats and buildings etc. and other allied activities. All the activities of the Company revolve around the primary business, as such there are no separate reportable segment.

The limited review of the same has been carried out by the statutory auditor of the Company. Figures for the previous periods / years have been regrouped / reclassified, wherever necessary to correspond with the current period/years classification / disclosure.

Formulae for computation of ratios are as follows: a) Debt/Equity ratio: Debt/Equity. Debt represents borrowings. Equity includes Equity Share Capital and Other Equity excluding Revaluation Reserve.

b) Debt Service Coverage Ratio: Profit/(Loss) Before Interest and Tax/(Interest Expenses Principal Repayment of borrowings made during the period/year).

Interest Service Coverage Ratio: Profit/(Loss) Before Interest and Tax/Interest Expenses. d) Net Worth: Total Equity excluding Other Comprehensive Income, Revaluation Reserve and reserves

created out of amalgamation.

ote: The Entity does not have corresponding previous year quarterly financial results for December 2020 hence the column on corresponding figures for such quarters is not applicable.

Place: New Delhi

Date: 12.02.2022

For Entry India Projects Private Limited

Madhay Dhir

SATTVA HOLDING AND TRADING PRIVATE LIMITED CIN.: U65923MH2011PTC214070

Regt. Office: Unit No. 205, 2nd Floor, Welspun House, Kamala City, Lower Parel (West), Mumbai 400013 Tel.: +9122 40016500/ 2481 6500

Fax: +9122 24955659 | www.sattvaholding.com | Email: sattvaholding@gmail.com EXTRACT OF CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2021

			Rs. In Lakhs)
Particulars		C. Seedle State of Control	Year ended
Particulars			
AUCUSTURED NEW ARREST MODEL ON	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations	2,136.72	S#	2,859.91
Net Profit / (Loss) for the period			400
(before Exceptional items)	181,54	55 <del>4</del>	-7,480.91
Net Profit / (Loss) for the period before tax			118908-08010
	181.54		-7,480.91
			V=300 0#10000
	-222.14	-	-8,023.48
	American Consul		500000000000000000000000000000000000000
			426,884.49
	Control of the Contro		205.00
사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 되었다면 하는 사람들이 되었다면 하는 것이 되었다면 하는 것이다.	1,644,743.43	-	1,224,594.98
		-	1,224,799.98
			Nil
	100 00000	-	Nil
	0.06	10.7	0.10
			g 98
	10.94	-	-391.39
CONTRACTOR OF THE MATTER CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF T			-36.39
	2777.0		Nil
	1,750		Nil
	0.000	9	Not applicable
			Not applicable
	Net Profit / (Loss) for the period (before Exceptional items) Net Profit / (Loss) for the period before tax	Total Income from Operations Net Profit / (Loss) for the period (before Exceptional items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) andOther Comprehensive Income (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt Outstanding Redeemable Preference Shares Debt Equity Ratio Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (not annualised) [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]- Basic (INR) Diluted (INR) Capital Redemption Reserve Debt Service Coverage Ratio Not applicable	Total Income from Operations Net Profit / (Loss) for the period (before Exceptional items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (after tax) Income (after tax) andOther Comprehensive Income (after tax) andOther Comprehensive Income (after tax) andOther Comprehensive Income (after tax)] Paid up Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) Net worth Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt Outstanding Redeemable Preference Shares Debt Equity Ratio Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (not annualised) [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Basic (INR) Diluted (INR) Capital Redemption Reserve Debenture Redemption Reserve Nil Debt Service Coverage Ratio Not applicable

No.	Particulars	31.12.2021	31.12.2020*	31.03.2021
		Unaudited	Unaudited	Audited
	Total Income from Operations	2,136.72	1/2	2,859.91
2	Net Profit / (Loss) for the period	5-2-00-00-0		0.000.0000.0000
	(before Exceptional items)	181.89	9.5	-7,479.25
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax	NA 00000		
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	181.89		-7,479.25
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	000000000000000000000000000000000000000		0.99,765,9999
90	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	-221.84		-8,021.82
5	Total Comprehensive Income for the			
	period [Comprising Profit / (Loss) for the			
	period (after tax) and Other Comprehensive			
5000	Income (after tax)]	64,839.70	-	426,886.15
	Paid up Equity Share Capital	205.00		205.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	1,644,743.43		1,224,600.70
	Securities Premium Account		S <del>-</del>	j <del>-</del>
300	Net worth	1,644,948.43	-	1,224,805.70
	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	Nil		Nil
	Outstanding Redeemable Preference Shares	Nil		Nil
12	Debt Equity Ratio	0.06	132	0.10

**Particulars** 

13 Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (not annualised) [Comprising Profit / (Loss)

Other Comprehensive Income (after tax)]-

for the period (after tax) and

14 Capital Redemption Reserve 15 Debenture Redemption Reserve 16 Debt Service Coverage Ratio

(Rs. In Lakhs)

Year ended

-391.31

Not applicable

-36.38

Standalone

Quarter Ended

-10.82

-1.01

Not applicable

Not applicable

### 17 Interest Service Coverage Ratio \* Exemption from reporting

Basic (INR)

Diluted (INR)

The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the guarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity. (https://www.bseindia.com/stock-share-price/sattva-holding-andtrading-pvt-ltd/0shtpl30223/959251/corp-announcements/) and (https://sattvaholding.com/Display/financialResult)

For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) (BSE Ltd.) and can be accessed on the URL (https://www.bseindia.com/stock-share-price/sattva-holding-and-trading-pvtltd/0shtpl30223/959251/corp-announcements/).

The consolidated and standalone results have been prepared in accordance with the principles laid down in Indian Accounting Standard 110 - consolidated and standalone Financial Statements, notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to

time, and other accounting principles generally accepted in India. The above results prepared and presented pursuant to the requirement of Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, have been reviewed, approved and taken on record by the Holding Company's Board of Directors at their meetings held on 11th February, 2022.

5 The Company has taken into account the possible impact of COVID-19 in preparation of the Financial Results, including but not limited to its assessment of liquidity and going concern assumption, recoverable values of its financials and non-financial assets, impact on revenues and on cost including impact on leases. The management has assessed the impact of the pandemic on its assets, investments, liquidity and ability to repay its obligations as and when they fall due and based on the same currently no material impact is estimated. However, given the uncertainty of the pandemic going forward, the impact of the pandemic may be different from what has been estimated as at the date of approval of these financial results. The management will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions.

There has been no material change in the controls or processes followed in the closing of the financial results of the Company.

Previous period's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary. For and on behalf of the Board of Directors of SATTVA HOLDING AND TRADING PRIVATE LIMITED CIN. NO- U65923MH2011PTC214070

Place : Mumbai Date: 11° February, 2022

Percy Jal Dajee CEO & Principal Officer



# हिंग्हिल

## कोरोना : चौबीस घंटे में 368 नए संक्रमित, एक की मौत

शिमला, १५ फरवरी (जनसत्ता)।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटों में एक मरीज ने दम तोड़ा है और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 4,066 तक पहुंच गया है। प्रदेश में आज 368 नए मरीज भी सामने हैं जबिक 748 मरीज ठीक हए हैं। सक्रिय मरीजों का आंकडा घटकर 3 हजार 35 तक पहुंच गया है। जबिक कुल मामले बढकर दो लाख 81 हजार 16 तक पहुंच गए हैं। आज

सबसे ज्यादा 115 नए मामले जिला कांगडा में सामने आए हैं जबकि मंडी में 46 नए मामले सामने आए हैं।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मृताबिक जिला कांगड़ा में 84 साल की एक महिला को मधुमेह की समस्या थी। उसे गंभीर तौर पर कोविड हो गया व उसकी हालात बिगड़ती चली गई। आखिर में इस बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। कांगड़ा में अब तक कोविड से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं।

### NOTICE INVITING TENDER

Sealed tenders are invited by the undersigned on behalf of Solding Hydrowatt Pvt Ltd for Design, Engineering, Manufacturing, supply of 2 x 3.50MW + 10% COL Solding Hydro SHP, Distt. Kinnaur, delivery at site along with Erection & Commissioning. The bidder should be experienced firm, company, or Consortium of companies who have done similar works with minimum turnover of Rs 20 Cr. in last three years. The bidders shall submit the proof of its competence and work done certificate so as to make him eligible for issuance of the tender documents. The detailed bid documents can be purchased from the office of Allied Hydro Engineers & Consultants Pvt. Ltd, H.No. 156, Backside of Petrol Pump, Sarasawati Vihar, Dhakoli, Zirakpur-160104 on payment of Rs 15000/- through NEFT to HDFC Account No. 17372000000674, IFSC: HDFC0001737 from 16-02-2022 to 25-02-2022. The pre-bid conference shall be held on 05-03-2022 and bid shall be received on or before 12-03-2022 upto 12:30PM which shall be opened on the same day at 3:00PM in the presence of the bidders who may like to be

All bids must be accompanied by a bid security of Rs. 2Lacs in shape of demand draft in favor of Solding Hydrowatt Pvt Ltd Payable at

- The undersigned reserves the right to reject any or all bids without
- assigning any reasons whatsoever. The bidders should have registration under service tax, CST/GST No
- and shall have the Pan No. as required under the rules before issuance of bid documents

Other details can be seen in the bidding documents. Vice President :

Solding Hydrowatt Pvt Ltd

### MARBLE FINVEST LIMITED CIN: L65910CH1984PLC021285

Regd Office: 78, Industrial Area, Phase-1, Chandigarh. Ph.:0172-4014347 Email: marblefinltd@gmail.com, website:marblefinvest.com

**Extract from Standalone Un-Audited Financial Results** 

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended	Year to date figure	3 months ended in the previous year
500		31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
1.	Total Income from Operations	4.04	12.00	4.02
2.	Net Profit (Loss) (before tax and Exceptional and/or Extraordinary Items)	0.98	1.66	3.13
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and /or Extraordinary items)	0.98	1.66	3.13
4.	Net Profit/(Loss) after tax and Exceptional and/or Extraordinary items)	0.73	1.23	2.32
5.	Total Comprehensive Income (Comprising Profit/ (loss)after tax and other comprehensive Income)	0.73	1.23	2.32
6.	Equity Share Capital of Nominal value of Rs.10/- each	279.90	279.90	279.90
	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	(5)	3,215.14	3214.37
8.	Earnings Per share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)(amount in Rs.) Basic & Diluted:	0.03	0.04	0.08

Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Financial Results is available on the portal of Metropolitan Stock Exchange of India (MSEI) at www.msei.in and company's website at www.marblefinvest.com.

Place:Chandigarh Date:14.02.2022

For Marble Finvest Ltd Sd/- (Kamal Jeet) WTD & CFO (DIN:08562859)

By order of the Board


## गैस सिलेंडर के रिसाव से मकान में भड़की आग

6 बच्चों सहित 10 लोग झुलसे; इनमें से चार बच्चे पीजीआई रैफर

बीरबल शर्मा मंडी, 15 फरवरी।

मंडी शहर के मंगवाई वार्ड में मंगलवार सुबह करीब 9 बजे घरेलू गैस सिलेंडर के रिसाव से तीन मंजिला मकान की दूसरी मंजिल में आग भड़क गई। आग लगने से 6 बच्चों सहित 10 लोग झुलस गए। हादसे में घायल चार बच्चों शिवम (5),अंशुल उर्फ सूरज (4), आनंद (4) और सत्यम (डेढ़ साल) को हालत गंभीर होने पर नेरचौक मेडिकल कॉलेज से देर शाम पीजीआइ, चंडीगढ रैफर कर दिया गया है।

घटना का पता लगने पर स्थानीय लोग राहत कार्य में जुट गए और अग्निशमन विभाग को जानकारी दी। विभागीय दल ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पा लिया। इस घटना में करीब एक लाख रुपए का नुकसान



हुआ है। घायलों में दो दंपति व 6 बच्चे आग की चपेट में आए हैं। सभी घायलों को नेरचौक मेडिकल कॉलेज रैफर कर दिया है। प्रभावित लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जो शहर में रेहड़ी फड़ी लगाते हैं।

जानकारी के अनुसार मंगवाई वार्ड के सैगला गांव में खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदाम के समीप भवानी सिंह



के तीन मंजिला मकान के दूसरी मंजिल में मंगलवार सबह अचानक आग भड़क गई। मकान में उत्तर प्रदेश के दो सगे भाई राकेश और योगेश अपने परिवारों सहित किराए पर रहते थे। सुबह गैस सिलेंडर में रिसाव होने से यह हादसा पेश आया। घटना का पता चलने पर स्थानीय लोग राहत कार्य में जुट गए और अक्निशमन

मिलने पर विभागीय दल मौके पर पहुंचा जहां आग पर काबू पाया गया। घटना के दौरान मकान में रखा सामान जिसमें बैड, बिस्तर, कपड़े, रसाई का सामान, दवाजे, खिडिकयों सिहत अन्य सामान जल कर राख हो गया है। करीब एक लाख रुपए का नुकसान की आशंका है। घायल में जिसमें 6 बच्चे, 2 पुरूष और दो महिलाएं शामिल है। सभी बच्चे 10 वर्ष से कम आयु के हैं।

विभाग को सूचित किया। अग्निशमन कर्मचारियों के

पहंचने पर आँग पर काबू पा लिया। अग्निशमन विभाग

के लिडिंग फायरमैन मायाधर ने बताया कि सूचना

एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। हालांकि घटना गैस रिसाव के कारण हुई है। फिर भी जांच करवाई जाएगी। घायलों में राकेश कमार (35) और उसका भाई योगेश (30) पत्र राय सिंह निवासी गांव केडी तहसील एवं जिला कासगंज उत्तर प्रदेश। गीता कुमार योगेश के चाचा, बच्चों में राकेश, शिवम, देववती, शिवानी, राकेश व दुष्यंत इस अग्निकांड में झुलस गए हैं। ये लोग दो कमरों में किराए पर रहते थे।

## प्रदेश में खाद की कमी से संकट में किसान-बागवान

किसान संघर्ष समिति ने कहा, किसान खुले बाजार से महंगी खाद खरीदने को मजबूर

शिमला, १५ फरवरी (जनसत्ता)।

प्रदेश किसान संघर्ष समिति ने प्रदेश में खाद की कमी को लेकर पैदा हुए संकट पर गंभीर चिंता जताते हुए जयराम सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। सभा ने कहा कि जब किसानों खासतौर पर सेब बागवानों को खाद की अत्यंत आवश्यकता है उसे सरकार आवश्यकता अनुसार कोई भी खाद उपलब्ध नहीं करवा रही है और मजबूरन बागवानों को खुले बाजार से महंगी व निम्न गुणवत्ता वाली खाद लेने के लिए मजबर होना पड रहा है।

किसान संघर्ष समिति के संयोजक संजय चौहान ने कहा कि सरकार इन किसान व बागवान विरोधी नीतियों के चलते कृषि व बागवानी के क्षेत्र में सहायता व सब्सिडी में कटौती कर रही है जिससे प्रदेश में कृषि का संकट पैदा हो गया है। सरकार यदि तुरन्त किसानों को उचित कीमत पर मांग अनुसार खाद उपलब्ध नहीं करवाती है तो किसान संघर्ष समिति किसानों को लामबंद कर सरकार की इन किसान व बागवान विरोधी नीतियों व रवैए के विरुद्ध संघर्ष करेगी।

चौहान ने कहा कि जनवरी व फरवरी महीने में हुई बेहतर बर्फबारी के बाद बागवानों को अपने बगीचों में प्राथमिकता से खाद डालने के कार्य करना है। परन्तु आज जिन खादों की आवश्यकता है सरकार इन्हें उपलब्ध नहीं करवा रही है और खुले बाजार में खादों की कीमतों में साल की तुलना में

भारी वृद्धि की गई है। आज बगीचों में की ओर से समय रहते आवश्यक खादों के पोटाश, एनपीके की दो किसमों डालने का समय आ गया है। लेकिन कहीं पर भी यह खादें उपलब्ध नहीं है और अब मजबूरन बागवानों को खुले बाजार से निम्न गुणवत्ता वाली खादें जोकि कृषि व बागवानी विश्विद्यालय या बागवानी विभाग की ओर से अनुमोदित नहीं है उन्हें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इससे भविष्य में सेब के उत्पादन व उत्पादकता में कमी आएगी जिससे बागवानी का संकट और अधिक गहरा होगा और सेब की आर्थिकी की बबादी से प्रदेश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होगा।

उन्होंने कहा क प्रदेश में सरकार की ओर से आजतक हिम्फेड के जरिए खाद उपलब्ध करवाई जाती रही है। परन्तु सरकार की लचर व्यवस्था के चलते आज हिम्फेड आर्डर नहीं दिये गए जिससे आज खाद का संकट खडा हो गया है।

घायल बच्चे व अन्य।

इसके साथ केंद्र व राज्य सरकार की ओर से खाद पर दी जा रही सब्सिडी बन्द करने से खाद की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। पिछले साल जो कैल्शियम नाइट्रेट का 25 किलो का एक बोरी 1100 से 1250रुपए में मिल रही थी वह अब 1300 से लेकर 1750 में मिल रहा है। पोटाश का 50 किलो की एक बोरी जो पिछले साल 1150 रुपए में में मिल रही थी उसकी कीमत भी अब 1750 की जा रही है।

एनपीके की एक किस्म जिसकी कीमत पिछले साल रुपए थी. उसकी कीमत भी 1,750 कर दी गई है। बावजुद इसके न तो पोटाश खाद उपलब्ध है और न ही एनपीके की किस्में उपलब्ध है।

## संक्रमण दर घटी तो कोविड बंदिशें कम कीं

शिमला, १५ फरवरी (जनसत्ता)।

प्रदेश में कोविड से संक्रमण दर में अस्पतालों में कोविड मरीजों की कमी के चलते प्रदेश में कोविड बंदिशों को कम करने को लेकर आज आदेश जारी कर दिए है। प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा ने जारी अपने आदेशों में कहा है कि 17 फरवरी से प्रदेश के तमाम स्कूल निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक खुल जाएंगे। इन सभी शिक्षण संस्थानों को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

इसके अलावा अब तमाम सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, तरणताल या स्विमिंग पुल भी खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब गर्भवती महिला कर्मचारियों और विकलांग कर्मियों को कोरोना की वजह से कार्यालयों में न आने की छट को समाप्त किया जाता है।

### HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT

e-Procurement Notice **INVITATION FOR BIDS (IFB)** 

The Executive Engineer, Shimla, Division No. I, HPPWD, Shimla-3, H.P on behalf of Governor of H.P invites the item rate bids. n electronic tendering system from the eligible class of contractors registered with HPPWD for the works as detailed in the table.

Sr. No.	Name of Work	Estimated Cost.	Starting date for downloading Bid	Earnest Money	Deadline for submission of Bid
1	Annual Periodical Maintenance of MDR 67 (Sh:- Providing Renewal coat of 30 mm thick bituminous concrete surface on MRR Via Lakkar Bazar Km. 147/825 to 152/460) (Under AMP-2022-23)	2,16,67,805	02-03-2022	433400/-	16-03-2022
2	Annual Periodical Maintenance of MDR 66 (Sh:- Providing Renewal coat of 30 mm thick bituminous concrete surface on MRR Via Chotta Shimla Km. 145/00 to 152/00) (Under AMP-2022-23)	2,92,62,177	02-03-2022	585250/-	16-03-2022
3	Annual Periodical Maintenance of MDR 66 (Sh:- Providing Renewal coat of 30 mm thick bituminous concrete surface on Dhalli Bye Pass road Km 0/00 to 3/770) (Under AMP-2022-23)	1,31,37,692	02-03-2022	262760/-	16-03-2022
4	Construction of road from Bhattakufer to iGMC Phase-II km. 0/700 to 2/400 in District Shimla (HP) (SH;- F/C, C/O R/wall, B/Wall, Hume pipe Culvert, P/L GSB, G-I,G-II,G-III, 50mm thick BM, 30mm thick BC, C/O V-Shape drain, PCC parapets etc).	34612471/-	02-03-2022	693000/-	16-03-2022
5	Construction of near Auditorium at IGMC site (SH:- Cutting and disposal of earth)(Under Shimla Smart city)	7499835/-	02-03-2022	150000/-	16-03-2022
6	Widening /Improvement from Kasumpti to Mehli (GAD Colony) km. 0/00 to 0/550 (SH;- Widening of C/O pedestrian path from Rd. 0/196 to 0/485)(Under Smart city mission).	12125957/-	02-03-2022	242500/-	16-03-2022
7	Construction of foot path from Raj Bhawan to Bavbahar chowk on Circular road Shimla km. 152/500 to 154/375 (Under Smart city Mission).	18325926/-	02-03-2022	215800/-	16-03-2022

The executive Engineer reserves the right to accept/reject any tender/application or all tenders without assigning any reason.

## अलग-अलग हादसों में दो की मौत

धर्मशाला, १५ फरवरी (जनसत्ता)।

ऊना जिले के अंब बाजार में नैहरियां चौक पर ट्रक की चपेट में आने से एक स्कूटी सवार बुजुर्ग सुरजीत सिंह की मौत हो गई। सुरजीत सिंह नकड़ोह गांव का निवासी था। सेवानिवृत ७५ वर्षीय प्रधानाचार्य सुरजीत राम नगर नकडोह पंचायत के उप प्रधान भी रह चुके हैं।

जानकारी के मृताबिक सुरजीत सिंह सुबह घर से अंब गए हुए थे और वहां चौक से नैहरियां रोड़ की तरफ जाते हुए बाजार में ही उसकी स्कूटी को पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने साईड मार दी। जिसके चलते वह अनियंत्रित होकर स्कूटी समेत सड़क पर गिरकर बुरी तरह से घायल हो गए। नाजुक हालत में उपचार के लिए स्थानीय दुकानदार ने उन्हें अंब अस्पताल ले गए मगर वहां से ऊना ले जाते वक्त उन्होने रास्ते में दम तोड

दिया। थाना प्रभारी आशीष पठानिया ने बताया कि दर्ज कर पुलिस ट्रंक चालक की तलाश कर रही है। इसी बीच कांगड़ा जिले में पंजाब के साथ लगते सरहदी इलाके इंदौरा उपमंडल के तहत मोहटली रैंप में मालवा एक्सप्रेस रेल की चपेट में आने से 18 बरस की एक छात्रा महक की मौत हो गई। घंडार गांव की रहने वाली महक कालेज में पढ़ती थी। रेलवे पुलिस के हवलदार विक्रमजीत के मुताबिक मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है जबकि पोस्टमार्ट्म के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

जल रिसाव से गांव के

वजुद को खतरा चंबा जिले में पन बिजली परियोजना चमेरा के तृतीय चरण की सुरंग से जल रिसाव के कारण राड़ी पंचायत के मुचका गांव का वजूद खतरे में है और कई मकानों में दरारें आने से डर के साए में जीने को मजबूर लोगों ने इस समस्या का समाधान करने के लिए मंगलवार को कलोड़ वार्ड के जिला परिषद सदस्य ललित ठाकुर की अगुआई में एसडीएम चंबा नवीन तंवर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ललित ने कहा कि 2014 से ही इस परियोजना की सुरंग से लगातार पानी का रिसाव जारी है, जिसके चलते ग्रामीणों के घरों में दरारें आ गई हैं। किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवाया जा चुका है लेकिन अब तक उन्हें केवल कोरे आश्वासन ही मिले हैं। जिला पार्षद का कहना है कि इससे पहले कि जानमाल का नुकसान हो, पुनर्वास की व्यवस्था कर

लोगों को राहत प्रदान की जाए। उनका कहना है कि इसके लिए तत्काल उचित व्यवस्था नही की गई तो जनहित में आंदोलन किया जाएगा।

## ब्रुक्स लैबोरेटरीज़ लिमिटेड

CIN: L24232HP2002PLC000267

पंजीकृत कार्यालय: गांव किशनपुरा, नालागढ़ रोड, बद्दी, जिला सोलन (हि.प्र.)-174101 टेलीफैक्स नं.: +91 1795 236939, ई-मेल: investors@brookslabs.net, वेबसाइट: www.brookslabs.net

31 दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही और नौ महीनें के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(लाख रु. में) कंसोलिडेटिड स्टैंडएलोन विवरण समाप्त तिमाही समाप्त नौ महीनें समाप्त नौ महीनें समाप्त वर्ष समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष 31 दिसं-20 31 दिसं-20 30 सिंत-21 31 दिसं-20 31 दिसं-21 31 मार्च-21 31 दिसं-21 30 सिंत-21 31 दिसं-21 31 दिसं-20 31 दिसं-21 31 मार्च-21 अनंकेक्षित अनंकेक्षित अनंकेक्षित अनंकेक्षित अनंकेक्षित अंकेक्षित अनंकेक्षित अनंकेक्षित अनंकेक्षित अनंकेक्षित अंकेक्षित अनंकेक्षित प्रचालनों से कुल आय (सकल) 1,767.03 2,105.08 2.092.20 5,430.23 6,263.18 7,724.69 1,900.83 2,146.21 2,092.20 6,261.54 6,263.18 7,724.69 सामान्य गतिविधियों से अविध के लिए शुद्ध (186.69)105.89 (311.72)61.51 (263.88)(843.53)(863.78)(652.96)(311.75)(1,737.83)(263.91)(898.53)लाभ/(हानि) (सहयोगी, कर, विशेष तथा/ असाधारण मदों के लाभ/(हानि) के शेयर्स से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (186.69)105.89 (311.72)61.51 (263.88)(843.53)(863.78)(665.55)(255.50)(1.737.83)(207.66)(899.33)(सहयोगी, विशेष तथा/ असाधारण मदों के लाभ/(हानि) के शेयर्स के बाद) (1,558.76)(207.66)(1.937.55)(186.69)105.89 (311.72)61.51 (263.88)(740.40)(483.07)(255.50)(1,337.72) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (सहयोगी, विशेष तथा/ असाधारण मदों के लाभ/(हानि) के शेयर्स के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के (486.02)(189.64)102.94 (314.43)52.64 (1,547.97)(743.36)(258.21)(1,346.60)(215.78)(1,926.76)(272.00)लिए (कर के बाद)लाभ/ (हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को शामिल करके] इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10/- रु. प्रति शेयर) 2,470.28 2,470.28 2,470.28 2,470.28 2,470.28 2,470.28 2,470.28 2,470.28 2,470.28 2,470.28 2,470.28 2,470.28 पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार 7,371.32 3,950.76 3,950.76 3,950.76 7,371.32 7,371.32 5,444.56 5,444.56 5,444.56 आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त) आय प्रति शेयर (10/- रु. प्रति का) (वार्षिक नहीं) (क) मूल (0.77)0.42 (1.27)0.21 (1.10)(6.31)(3.14)(1.97)(1.05)(5.09)(0.87)(7.84)(0.77)0.42 (1.27)0.21 (3.16)(1.97)(1.05)(0.87)(ख) तनुकृत (1.10)(6.31)(5.13)(7.84)

टिप्पणी:

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण एवं अन्य प्रकृटीकरण अपेक्षांए) विनियमों, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत शेयर बाजार में दाखिल 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही और नौ महीनें के अनंकेक्षित स्टैंडएलोन और कंसोलिडेटिड वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही और नौ महीनें के स्टैंडएलोन और कंसोलिडेटिड वित्तीय परिणामों के संपूर्ण प्रारूप वेबसाईट www.bseindia.com, www.nseindia.com और www.brookslabs.net पर उपलब्ध है। हिते एवं कृते बोर्ड राजेश महाजन

स्थानः मुम्बई

दिनांकः 14 फरवरी, 2022

## लाखों की हेरोइन के साथ तीन गिरफ्तार

धर्मशाला, १५ फरवरी (जनसत्ता)।

ऊना पुलिस ने देर रात को की गई एक कार्रवाई में जिले के हरोली उपमंडल के तहत पंडोगा में 63.16 हेरोइन के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई नशे की इस खेप की कीमत बाजार में लाखों में बताई गई है। जानकारी के अनुसार सोमवार रात को हरोली थाने के प्रभारी सन्नी गलेरिया के नाका लगा रखा था। उस दौरान (42) के रूप में हुई है।

आधी रात को होशियारपुर की ओर से आ रही कार को रोककर जब चालक को कागजात दिखाने को कहा तभी किसी हड़बड़ी में नशे की किट भी सामने आ गई। लिहाजा तलाशी लिये जाने पर पुलिस ने इस हेरोइन को बरामद करने के साथ मौके पर ही तीन लोगों को काबू कर लिया। हरोली के डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगो नेतृत्व में पुलिस ने ऊना- की पहचान हमीरपुर जिले के भोटा होशियारपुर मुख्य मार्ग पर पंजाब निवासी शिव कुमार (41), राजीव चुनावों के मद्देनजर के पंडोगा में कुमार (29) और संदीप कुमार

## पुनर्सीमांकन से संबंधित आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग

शिमला, १५ फरवरी (जनसत्ता)।

वामपंथी पार्टी माकपा की कसुम्पटी इकाई ने नगर निगम शिमला के वार्डों के पुनर्सीमांकन से संबंधित आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाने की मांग की है।

पार्टी के सचिव सत्यवान पुण्डीर ने कहा कि सरकार ने आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए जो समय सीमा निर्धारित की है वह पर्याप्त नहीं है। इस बीच दूसरे शनिवार, रविवार और गुरू रविदास जयन्ती की छुट्टियां भी पड़ रहीं। पुण्डीर ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से अवलोकन के लिए जो सूची जारी की गई है उसमें वार्ड की सीमाओं को लेकर कोई अंदाजा नहीं लग रहा इसलिए आपत्ति दर्ज करने में मुश्किल हो रही है। पुण्डीर ने कहा

DIN: 02000634

प्रबंध निदेशक

कि जब तक वार्डों की सीमाओं का सही-सही पता नहीं लग जाता और इसके नक्शे तैयार नहीं हो जाते तब तक इसमें किसी तरह की तर्कसंगत आपत्ति नहीं उठाई जा सकती।

पुंडीर ने राज्य चुनाव आयोग से भी आग्रह किया है कि इसकी समय सीमा को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि अभी वार्डों में मतदाताओं को लेकर भी काफी विसंगतियां हैं। इसमें कई बूथ ऐसे हैं जो ग्रामीण और नगर निगम दोनों का हिस्सा हैं। इसमें कई मतदाता ऐसे हैं नगर निगम से बाहर पंचायत क्षेत्र में रहते हैं उनका वोट भी नगर निगम की सूची में है। उन्होंने मल्याणा वार्ड के गनोटी बूथ की मिसाल देते हुए कहा कि पिछले चुनाव में भी पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं ने नगर निगम में वोट डाला था।

Chandigarh

www.readwhere.com